



the global voice of
the legal profession



eyeWitness एप पर एक नज़र

- eyeWitness to Atrocities का उद्देश्य है अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को उचित सजा दिलाना और ऐसा करने के लिए यह प्रयोग करने में आसान एक कैमरा एप प्रदान करता है जो आवश्यक मेटाडेटा को पकड़ता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि किन्हीं भी जांच पड़ताल या मुकदमों में इन छवियों का प्रयोग किया जा सके।
- eyeWitness और ह्यूमन राइट्स एट सी (समुद्र पर मानवाधिकार) के बीच हुआ सहयोग नाविकों को सशक्त बनाएगा ताकि वे समुद्र पर होने वाले उल्लंघनों को रिकार्ड और सूचित कर सकें और इन दुर्व्यवहारों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को पकड़वाने में मदद कर सकें।
- आम मोबाइल फोन कैमरों से अलग इस eyeWitness एप में तीन मुख्य विशेषताएं हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि एप द्वारा ली गई तस्वीरों और वीडियो को सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके:
 - यह एप महत्वपूर्ण मेटाडेटा इकट्ठा करता है जिसमें जीपीएस निर्देशांक (कोऑर्डिनेट्स), तारीख और समय, और आस पास के सेल टावर और वाय फाय नेटवर्क की अवस्थिति शामिल है ताकि पुष्टि की जा सके कि फुटेज को किस तारीख/समय/स्थान पर रिकार्ड किया गया था;
 - यह एप पिक्सेल काउंट का प्रयोग करके एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने वाला कोड जनित करता है जो दिखाता है कि फुटेज को किसी भी तरीके से ना तो संपादित किया गया है और ना ही इसे किसी भी तरह से बदला गया है;
 - इस एप के द्वारा ली गई सभी तस्वीरों/वीडियो/ऑडियो को सीधे एप के द्वारा eyeWitness को भेजा जाता है। केवल एप द्वारा लिए गए और भेजे गए मीडिया को ही संचित किया जाता है जो सुनिश्चित करता है कि यह फुटेज का असली और बेबदल रूप है।
- इसे प्राप्त होने वाली सारी जानकारी को eyeWitness तब तक एक सुरक्षित, ऑफ-लाइन सुविधा में सुरक्षापूर्वक संचित रखता है जब तक इसे किसी जांच पड़ताल या परीक्षण में ना प्रयोग किया जा सके।
- eyeWitness एप को प्रयोग करने के चार मुख्य चरण हैं:
 - जल्दी से तस्वीरें खींचने या वीडियो या ऑडियो रिकार्ड करने के लिए यह एप अपने आप कैमरा मोड में खुलता है। एप का एक सुरक्षित मोड है और एक असुरक्षित मोड है। मानवाधिकारों को हानि पहुँचाने वाली घटनाओं को रिकार्ड करने के लिए सुरक्षित मोड का प्रयोग करें जिसे कैमरा व्यूअर के आस पास एक **नीले बॉर्डर** के द्वारा इंगित किया जाता है;
 - सुरक्षित मोड (नीला बॉर्डर) का प्रयोग करके रिकार्ड की गई छवियों को एप की सुरक्षित गैलरी में संचित किया जाता है। सुरक्षित गैलरी में प्रवेश करने के लिए, कैमरा के सेटिंग्स मेनू को चुनें, फोकस ग्रिड को चुनें और अपना पासवर्ड स्वाइप कोड डालें;
 - छवियों को टैप करके और नीचे दिए गए मेनू में सामान्य नोट्स आइकन को चुन कर तस्वीर या वीडियो के बारे में जानकारी जोड़ें या टैग जोड़ें आइकन को चुन कर लोगों या चीजों को पहचानें।
 - फाइल को चुनने के लिए इसके थंबनेल को टैप करें और पकड़ कर रखें और फिर मेनू बार में सबमिट (जमा करें) आइकन पर क्लिक करके फाइल को eyeWitness पर जमा करें।
- वर्तमान में यह एप अंग्रेजी, स्पैनिश, फ्रेंच, अरबी, रूसी और पुर्तगाली (ब्राजीलियन) में उपलब्ध है। स्थापित करने पर यह एप फोन की डीफॉल्ट भाषा का पता लगाएगा और फिर इसे उसी भाषा में स्थापित करेगा। अगर फोन की भाषा उपलब्ध छ: भाषाओं में से एक नहीं है तो यह एप डीफॉल्ट में अंग्रेजी में चलेगा।
- eyeWitness और ह्यूमन राइट्स एट सी (समुद्र पर मानवाधिकार) दोनों ही इस बात को सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं कि एकत्रित फुटेज का प्रयोग उन लोगों को उचित सजा दिलाने के लिए किया जाए जो नाविकों के विरुद्ध अत्याचार कर रहे हैं।